



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 1967/पौष 27, 1888

No. 13]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 1967/PAUSA 27, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य मन्त्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1967

सं० फा० 28 (63)—प्लॉट (ए)/66 :— राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में चाय के महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए, भारत सरकार ने इस उद्योग की आर्थिक परिस्थितियों तथा समस्याओं के सभी पहलुओं पर एक व्यापक समीक्षा करने और (बागानों और आयोग तथा चाय वित्त समिति के प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए) चौथी योजना अवधि के दौरान ठीक ढंग पर इसके उपयुक्त विकास हेतु जो उपाय करने अपेक्षित हैं उनके सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये एक समिति स्थापित करने का निर्णय किया है। समिति विशेषतः निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी :—

- (क) खपत की बढ़ती हुई मांग को, चाहे वह देश में हो अथवा विदेशों में, पूरा करने के लिये अपेक्षित स्तरों तक उत्पादन में परिमाण तथा साथ ही गुणों की दृष्टि से वृद्धि करने के लिये उपाय तथा साधन (जैसे अधिक एकड़ भूमि में उत्पादन तथा प्रति हेक्टर उपज बढ़ाना) निकालने का प्रश्न,

- (ख) विपणन, वित्त व्यवस्था तथा गवेषणा की वे अविलम्बनीय समस्याएं जिनका उद्योग को सामना करना पड़ रहा है और जो इसके समुचित विकास के मार्ग में बाधा डाल रही हैं, और
- (ग) कोई अन्य पहलू जो समिति के विचार में इस जांच के ध्यापक उद्देश्य से सम्बन्धित हों ।

2 समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

#### अध्यक्ष

1. श्री पी० सी बरुआ, संसद सदस्य, सदस्य लोक सभा ।

#### सदस्य

2. श्री खंडूभाई देसाई, संसद सदस्य, सदस्य राज्य सभा ।
3. श्री बी० सी० घोष, भारतीय चाय बागान मालिक संघ, जलपाईगुड़ी, पश्चिमी बंगाल ।
4. श्री एम० आर० एम० पूजा, अध्यक्ष, दक्षिण भारत के चाय बागान मालिकों का संयुक्त संघ, कन्नूर, तेलंगिरी ।
5. श्री डोनाल्ड वालेम, उपाध्यक्ष, भारतीय चाय संघ, कलकत्ता ।
6. डा० बी० पी० पाल, महानिदेशक तथा उपाध्यक्ष, भारतीय कृषि गवेषणा परिषद, नई दिल्ली ।
7. डा० ओ० पी० गौतम, उप-महानिदेशक, भारतीय कृषि गवेषणा परिषद, नई दिल्ली ।
8. श्री पी० के० कनोरिया, उपाध्यक्ष, चाय गवेषणा संघ, कलकत्ता ।
9. श्री बी० बी० पारिख, मैसर्स जे० थोमस एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता ।
10. श्री बी० के० दत्त, प्रबंध-निदेशक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, 4, कलाइव घाट स्ट्रीट, कलकत्ता ।
11. श्री भगवान सिंह, अध्यक्ष, चाय बोर्ड, कलकत्ता ।

#### सदस्य-सचिव

12. श्री एस० बनर्जी, उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली ।

3. समिति को अन्य सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा। समिति कलकत्ता अथवा देश में किसी अन्य स्थान पर बैठक कर सकती है।

4. समिति अपना प्रतिवेदन सरकार को यथासम्भव शीघ्र तथा अपनी नियुक्ति की तिथि से तीन मास से अनधिक समय में अवश्य देगी।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

आर० एस० तलवार, संयुक्त सचिव।

